



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 254 राँची, गुरुवार,

8 मार्च, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....
आदेश

10 मार्च 2018

संख्या-03नि0पं0-45/2016 रा0नि0आ0 339 .. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, हजारीबाग के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	हजारीबाग	V हजारीबाग/1/चौपारण	झलवा देवी, ग्राम-बनियाचक, पंचायत-अमराउल, प्रखण्ड-चौपारण	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		V हजारीबाग/3/चौपारण	संजु देवी, ग्राम-अमझर, पंचायत-बसरिया, प्रखण्ड-चौपारण	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		V हजारीबाग/4/बरही	मो0 इब्राहिम, ग्राम-लशकरी, पंचायत-रसोईया धमना, प्रखण्ड-बरही	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		V हजारीबाग/4/बरही	तोखन रविदास, ग्राम-बाराटाँड़, बरही, पंचायत-बरही पूर्वी, प्रखण्ड-बरही	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		V हजारीबाग/4/बरही	रुबी खातून, ग्राम-कोनरा, पंचायत-कोनरा, प्रखण्ड-बरही	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		V हजारीबाग/4/बरही	विनोद कुमार सिन्हा, ग्राम-न्यू कॉलनी, बरही, पंचायत-बरही पूर्वी, प्रखण्ड-बरही	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

7	ट हजारीबाग / 5 / बरही	चमेली देवी, ग्राम-हथगढ़ा, पंचायत-भण्डारो, प्रखण्ड-बरही	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8	V हजारीबाग / 5 / बरही	सरिता देवी, ग्राम-ओलंगा (पंचमाधव) पंचायत-बसरिया, प्रखण्ड-बरही	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9	V हजारीबाग / 6 / बरही	गयूर अली, ग्राम-करियातपुर, पंचायत-करियातपुर, प्रखण्ड-बरही	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10	V हजारीबाग / 6 / बरही	संतोष रजवार, ग्राम-बरसोत नीचे टोला, पंचायत-बरसोत, प्रखण्ड-बरही	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	V हजारीबाग / 7 / बरकट्टा	गुड़िया देवी, ग्राम-चेचकपी, पंचायत-चेचकपी, प्रखण्ड-बरकट्टा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	V हजारीबाग / 7 / बरकट्टा	चौहनी कुमारी देवी, ग्राम-शीलाडीह, पंचायत-शीलाडीह, प्रखण्ड-बरकट्टा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	V हजारीबाग / 7 / बरकट्टा	शकुन्तला देवी, ग्राम-गंगटियाही, पंचायत-झुरझुरी, प्रखण्ड-बरकट्टा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	V हजारीबाग / 8 / बरकट्टा	जय नन्दन प्रसाद यादव, ग्राम-गैड़ा, पंचायत-गैड़ा, प्रखण्ड-बरकट्टा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	V हजारीबाग / 8 / बरकट्टा	प्रकाश चौधरी, ग्राम-चुगलामों, पंचायत-चुगलामों, प्रखण्ड-बरकट्टा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	V हजारीबाग / 10 / ईचाक	आशा देवी, ग्राम-देवकुली, पंचायत-देवकुली, प्रखण्ड-ईचाक	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 8 मार्च, 2018

17	V हजारीबाग / 10 / ईचाक	मनीषा कुमारी, ग्राम-मोख्तमा, पंचायत-मंगुरा, प्रखण्ड-ईचाक	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	V हजारीबाग / 10 / ईचाक	मालती देवी, ग्राम-मंगुरा, पंचायत-मंगुरा, प्रखण्ड-ईचाक	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	V हजारीबाग / 10 / ईचाक	संगीता देवी, ग्राम-मंगुरा, पंचायत-मंगुरा, प्रखण्ड-ईचाक	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	V हजारीबाग / 11 / ईचाक	अनुराधा रानी, ग्राम-बरियठ, पंचायत-बरियठ, प्रखण्ड-ईचाक	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	V हजारीबाग / 12 / पदमा	कार्तिक कुमार मेहता, ग्राम-कुटीपिसी, पंचायत-कुटीपिसी, प्रखण्ड-पदमा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	V हजारीबाग / 14 / कटकमसांडी	उमामा रफअत, ग्राम-रोमी, पंचायत-रोमी, प्रखण्ड-कटकमसांडी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	V हजारीबाग / 14 / कटकमसांडी	तरननुम प्रवीन, ग्राम-पेलावल, पंचायत-पेलावल दक्षिणी, प्रखण्ड-कटकमसांडी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24	V हजारीबाग / 14 / कटकमसांडी	सबीना खातुन, ग्राम-रोमी, पंचायत-रोमी, प्रखण्ड-कटकमसांडी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25	V हजारीबाग / 15 / कटकमदाग	रिता देवी, ग्राम-विष्णुपुरी, पंचायत-कदमा 2, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
26	V हजारीबाग / 15 / कटकमदाग	सुशीला देवी, ग्राम-मसरातु, टोला महुडर, पंचायत-मसरातु, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

27	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	ओम प्रकाश सोनी, ग्राम-पसई, पंचायत-पसई, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	जमाल मियां, ग्राम-पसई, पंचायत-पसई, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
29	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	प्रमेश्वर गोप, ग्राम-पसई, पंचायत-पसई, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
30	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	भवेश कुमार मिश्रा, ग्राम-सिरसी 1, पंचायत-ढेंगुरा, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
31	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	मुकेश कुमार, ग्राम-पसई, पंचायत-पसई, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	मोहम्मद अफताब, ग्राम-नवादा (बनहा), पंचायत-नवादा, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
33	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	मोहम्मद मुर्तूजा, ग्राम-ढेंगुरा, पंचायत-ढेंगुरा, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
34	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	रूपेश यादव, ग्राम-सुलताना, पंचायत-कुसुम्भा, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
35	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	शम्भु गोप, ग्राम-ढेंगुरा, पंचायत-ढेंगुरा, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
36	V हजारीबाग / 16 / कटकमदाग	पंकज कुमार यादव, ग्राम-कुसुम्भा, पंचायत-कुसुम्भा, प्रखण्ड-कटकमदाग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 8 मार्च, 2018

37	V हजारीबाग / 17 / हजारीबाग	शाहिदा जुबैर, ग्राम-लाखे, पंचायत-लाखे, प्रखण्ड-हजारीबाग सदर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
38	V हजारीबाग / 20 / दारु	गीता देवी, ग्राम-महेशरा, पंचायत-जिनगा, प्रखण्ड-दारु	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
39	V हजारीबाग / 21 / केरेडारी	धनेश्वरी देवी, ग्राम-मसुरिया, पंचायत-मनातु, प्रखण्ड-केरेडारी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
40	V हजारीबाग / 21 / केरेडारी	ममुना खातुन, ग्राम-चट्टीबरियातु, पंचायत-चट्टीबरियातु, प्रखण्ड-केरेडारी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
41	V हजारीबाग / 21 / केरेडारी	मालती देवी, ग्राम-बारियातु, पंचायत-बारियातु, प्रखण्ड-केरेडारी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
42	V हजारीबाग / 23 / बड़कागाँव	सुषमा ठाकुर, ग्राम-बड़कागाँव, पंचायत-बड़कागाँव मध्य, प्रखण्ड-बड़कागाँव	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
43	V हजारीबाग / 24 / बड़कागाँव	बालदेव गन्धु, ग्राम-गाली, पंचायत-गोन्दलपुरा, प्रखण्ड-बड़कागाँव	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
44	V हजारीबाग / 24 / बड़कागाँव	राजधन महतो, ग्राम-चपरी कौसी, पंचायत-गोन्दलपुरा, प्रखण्ड-बड़कागाँव	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
45	V हजारीबाग / 25 / बड़कागाँव	मोहन मांझी, ग्राम-उरीमारी (हेसाबेड़ा), पंचायत-उरीमारी, प्रखण्ड-बड़कागाँव	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
46	V हजारीबाग / 26 / टाटीझरिया	अभय कुमार सिंह, ग्राम-खम्भवा, पंचायत-धरमपुर, प्रखण्ड-टाटीझरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

47	V हजारीबाग / 26 / टाटीझरिया	निर्मल महतो, ग्राम-नारायणपुर, पंचायत-खैरा, प्रखण्ड-टाटीझरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
48	V हजारीबाग / 26 / टाटीझरिया	सुरेश प्रसाद कुशवाहा, ग्राम-भोजया, पंचायत-डहरभंगा, प्रखण्ड-टाटीझरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
49	V हजारीबाग / 27 / विष्णुगढ़	उमेश प्रसाद, ग्राम-चेडरा, पंचायत-चेडरा, प्रखण्ड-विष्णुगढ़	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
50	अहजारीबाग / 27 / विष्णुगढ़	किशोर कुमार मंडल, ग्राम-चलकरी खुर्द, पंचायत-खरना, प्रखण्ड-विष्णुगढ़	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
51	V हजारीबाग / 27 / विष्णुगढ़	निरपत महतो, ग्राम-गोविन्दपुर कलां, पंचायत-गोविन्दपुर, प्रखण्ड-विष्णुगढ़	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
52	V हजारीबाग / 28 / विष्णुगढ़	खुशु देवी, ग्राम-बादीखरना, पंचायत-बेड़ाहरियारा, प्रखण्ड-विष्णुगढ़	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
53	V हजारीबाग / 28 / विष्णुगढ़	रीना कुमारी, ग्राम-अलपीटो, पंचायत-अलपीटो, प्रखण्ड-विष्णुगढ़	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
54	V हजारीबाग / 30 / डाड़ी	गोविन्द करमाली, ग्राम-होसरी (कनकी), पंचायत-कनकी, प्रखण्ड-डाड़ी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
55	V हजारीबाग / 30 / डाड़ी	सयुम अंसारी, ग्राम-हुआग, पंचायत-हुआग, प्रखण्ड-डाड़ी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
56	V हजारीबाग / 30 / डाड़ी	सुदर्शन प्रसाद, ग्राम-होसालौंग, पंचायत-होसालौंग,, प्रखण्ड-डाड़ी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 8 मार्च, 2018

57	V हजारीबाग / 30 / डाड़ी	सुदर्शन महतो, ग्राम-बलसगरा, पंचायत-बलसगरा, प्रखण्ड-डाड़ी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
58	V हजारीबाग / 31 / डाड़ी	गुंजन साव, ग्राम-रेलीगढ़ा, पंचायत-रेलीगढ़ा पश्चिमी, प्रखण्ड-डाड़ी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
59	V हजारीबाग / 31 / डाड़ी	गौरी शंकर टुडू, ग्राम-रेलीगढ़ा, पंचायत-रेलीगढ़ा पश्चिमी, प्रखण्ड-डाड़ी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
60	V हजारीबाग / 32 / चुरचू	एलिशा डंग, ग्राम-डुमर, टोला बजरमरी, पंचायत-चुरचू, प्रखण्ड-चुरचू	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह० /-(अस्पष्ट),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।
